


# कोरोना वायरस के टीके की संक्षिप्त जानकारी

COVID-19 (कोरोना वायरस) से लड़ने के लिए बने टीके के बारे में Norwegian Institute of Public Health की ओर से संक्षिप्त जानकारी.




## कोरोना वायरस के टीकाकरण की जानकारी

ऐसे सभी लोगों को टीका लगेगा जिन्हें इसे लगवाने का सुझाव दिया गया है.

टीके का कोई शुल्क नहीं है.

टीका आपको COVID-19 के संक्रमण से सुरक्षित रखेगा.




## आपको टीका कैसे लगाया जाएगा?

टीका लगाने के लिए आपकी बाँह पर इंजेक्शन लगाया जाएगा.

कुछ टीकों के दो डोज़ लगाए जाएँगे, जो कई हफ़्तों के अंतराल पर लगेँगे.

अगर आप गर्भवती हैं, आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, आप दवाइयाँ लेते हैं, बीमार हैं या आप COVID-19 से संक्रमित हो चुके हैं, तो इसके बारे में ज़रूर बताएँ.



## टीका कितना कारगर है?

अधिकांश लोग सभी डोज़ लग जाने के 1-2 हफ़्ते बाद COVID-19 से सुरक्षित हो जाते हैं.

टीका लगवाने के बाद भी संक्रमण फैलने से रोकने के लिए दी गई सलाह का पालन करें.



## टीका कैसे काम करता है?

यह टीका मानव शरीर को कोरोना वायरस की पहचान करके उससे लड़ना सिखाता है.

यह टीका अपना काम करके तुरंत मानव शरीर से निकल जाता है.



हालाँकि, इसके बाद मानव शरीर को इस वायरस से अपनी सुरक्षा करना आ जाता है.

## दुष्प्रभाव

इस टीके को हजारों लोगों पर आजमाकर बड़े-बड़े अध्ययनों के ज़रिए परखा गया है. इसके कुछ सामान्य से दुष्प्रभाव ये हैं:

- इंजेक्शन लगने वाली जगह पर दर्द
- थकान
- सिर दर्द
- शारीरिक दर्द
- बुखार आना या ठंड लगना

इन दुष्प्रभावों से थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन ये कुछ ही दिनों तक रहते हैं.



## असामान्य दुष्प्रभाव

टीका लगने के बाद अगर आपके शरीर में कोई अनचाहे, गंभीर दुष्प्रभाव हैं या लंबे समय तक किसी दुष्प्रभाव के लक्षण बने हुए हैं, तो किसी चिकित्सक या स्वास्थ्य मामले के अन्य जानकार लोगों से संपर्क करें.